

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन की रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस को 2021-2022 के लिए एंटी-जातिवाद और समानता की स्टैंडिंग कमेटी में एफ.सी.एम. की वाइस-चेयर के तौर पर नियुक्त किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 अगस्त, 2021) – आज, फेडरेशन ऑफ कैंनेडियन म्युनिसिपल्टीज (एफ.सी.एम.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM) ने घोषणा की कि एफ.सी.एम. की प्रेजिडेंट जोआन वैन्डरहेडन (Joanne Vanderheyden) के द्वारा, ब्रैम्पटन की रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos) को, एंटी-जातिवाद और समानता (Anti-Racism and Equity) की स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) में, 2021-2022 के लिए वाइस-चेयर नियुक्त किया गया है।

एफ.सी.एम. की स्टैंडिंग कमेटी, विस्तृत विचारविमर्श को सुगम बनाने में सहायता करती है और एफ.सी.एम. बोर्ड (FCM Board) को, प्राथमिक नीति और प्रोग्राम संबंधी मुद्दों पर सलाह प्रदान करती है। स्टैंडिंग कमेटी को अपने चेयर्स और वाइसचेयर्स में मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है, जो यह सुनिश्चित करते हुए कि कमेटी के सभी मेम्बर्स को केंद्रित और उपयोगी चर्चाओं में शामिल होने का अवसर मिला है, उनके अध्यादेश से संबंधित मुद्दों और कार्यनीतियों पर कमेटी की चर्चाओं में उनका मार्गदर्शन कर पाएं। प्रत्येक कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंगों के साथ, हर वर्ष तीन बार मीटिंग करती है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कैंनेडा की म्युनिसिपल्टीज और हमारे फेडरल साझेदारों के साथ, साझेदारियों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। यह ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए मुख्य प्राथमिकताओं की हिमायत करना जारी रखेगी। इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु संबंधी बदलाव और बाढ़ के जोखिम को कम करने, ट्रांजिट के विस्तार, हुरोन्टैरियो-मेन स्ट्रीट एल.आर.टी. (Hurontario-Main St. LRT) और कोविड-19 (COVID-19) से राहत।

जून में, काउंसलर सैंटोस को एक वर्ष की टर्म के लिए, फेडरेशन ऑफ कैंनेडियन म्युनिसिपल्टीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दुबारा चुना गया था। वे म्युनिसिपल सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की एफ.सी.एम. स्टैंडिंग कमेटी, म्युनिसिपल फाइनेंस और इंटरगवर्नमेंटल प्रबंधों की स्टैंडिंग कमेटी तथा म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर व ट्रांसपोर्टेशन नीति पर स्टैंडिंग कमेटी की मेम्बर हैं।

एफ.सी.एम., 1901 से कैंनेडा की म्युनिसिपल सरकार की राष्ट्रीय आवाज़ रही है। इसके मेम्बर्स में कैंनेडा के शहरों और ग्रामीण कम्युनिटीज से लेकर, उत्तरी कम्युनिटीज और 20 प्रोविंसियल और इलाके की म्युनिसिपल एसोसिएशन्स तक, हर आकार की 2,000 से अधिक म्युनिसिपल्टीज शामिल हैं। इकट्ठे मिलकर, वे तीनों तरफ के तटों के सभी कैंनेडा निवासियों की 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर वर्ष, पूरे कैंनेडा के म्युनिसिपल लीडर, मुख्य मुद्दों पर एफ.सी.एम. की नीति तय करने के लिए इकट्ठे होते हैं।

ब्रैम्पटन की सिटी काउंसिल (City Council) की कार्यवाहियां और टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरीटीज (Term of Council Priorities), तीनों तरफ के तटों की कई कैंनेडियन म्युनिसिपल्टीज की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, जिनमें शामिल हैं, विविधता का जशन मनाना और

एंटी-जातिवाद नीति लागू करना, वहनीय घर, ट्रांज़िट, जलवायु संबंधी कार्रवाई और सुरक्षित रूप से अर्थव्यवस्था को दुबारा शुरू करने के लिए कारोबारियों और कम्युनिटीज के लिए कोविड-19 संबंधी सहायता।

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखकर करते हैं। हम हमारे प्रोग्रामों और सेवाओं में विविधता, समानता और भागीदारी को शामिल करने और रुकावटों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे निवासियों के साथ, जाति या लिंग पर विचार किए बिना निष्पक्ष और समानता का व्यवहार हो। मैं एंटी-जातिवाद और समानता पर स्टैंडिंग कमेटी की वाइस-चेयर के तौर पर नियुक्त किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं हमारे देश की विविधता का जशन मनाने, भागीदारी को बढ़ाने और कैंनेडा की म्युनिसिपल्टीज और फेडरल सरकार के बीच मज़बूत रिश्ते को और मज़बूत करने के लिए, साथी म्युनिसिपल्टीज के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूँ। जारी साझेदारी और सहयोग के द्वारा, हम जातिवाद से लड़ सकते हैं, रुकावटों को दूर कर सकते हैं और सभी के लिए अधिक समानता वाला देश बना सकते हैं तथा पूरे कैंनेडा में ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर सकते हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, मेम्बर, एफ.सी.एम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

“सरकार के सभी महकमों के बीच सहयोग, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए और हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए नतीजे प्राप्त करने के लिए जरूरी है। काउंसिल की ओर से, मुझे खुशी है कि एंटी-जातिवाद और समानता की जोशपूर्ण हिमायती – काउंसलर सैंटोस, जो हमारे निवासियों के लिए नतीजे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है – को एंटी-जातिवाद और समानता की स्टैंडिंग कमेटी की, वाइस-चेयर नियुक्त किया गया है। मुझे पता है कि वे उस काम को जारी रखेंगी, जो हमारी सिटी रुकावटों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए कर रही है – जैसे हमारे कर्मचारियों और नागरिकों को सेवा देने के लिए इक्विटी ऑफिस की नींव रखना और सिटी की पहली एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई की शुरुआत करना – और ट्रांसपोर्टेशन, कोविड-19 से बहाली में सहायता और ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर नतीजे प्राप्त करने के लिए हमारे फेडरल साझेदारों के साथ सहयोग करने के लिए काम करना।

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)



Media Release

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca